



Dynamic Cables Limited

(Govt. Recognised TWO STAR Export House)
(An ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018 Company)

www.dynamiccables.co.in

Date: May 15, 2024

To,

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001
Scrip Code: BSE-540795

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1
G-Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra(East) Mumbai-4000501
Trading Symbol: DYCL

Sub: Newspaper Advertisement - Audited Financial Results for the quarter and financial year ended on March 31, 2024.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the extract of Audited Financial Results for the quarter and financial year ended on March 31, 2024 published in Economic Times (English) and Business Remedies (Hindi) on May 15, 2024.

The same is also made available on the website of the Company at www.dynamiccables.co.in

Kindly take on record the same and oblige us.
Thanking you,

Yours faithfully

For **Dynamic Cables Limited**

Naina Gupta
Digitally signed
by Naina Gupta
Date: 2024.05.15
20:29:42 +05'30'

Naina Gupta
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. A56881

Encl.: as above



CIN: L31300RJ2007PLC024139

Regd. Office & Unit-1: F-260, Road No.13, VKI Area, Jaipur-302013 (INDIA)
Ph: +91 141 2262589, 4042005 | Fax: +91 141 2330182 | Email: info@dynamiccables.co.in

HT Upto 66KV & LT Aerial Bunched, Power, Control & Railway Signalling Cables, ACSR/AAC / AAAC / MVCC Conductors / EV Charging Cables.

CAA a Central Issue, Banerjee Can't Stop it: Shah in Bengal

Our Political Bureau

Kolkata: Union home minister Amit Shah on Tuesday said the Citizenship Amendment Act (CAA) is a central issue and that Mamata Banerjee or no power in the world can stop its implementation. "All brothers and sisters from the Matua and Namasudra Samaj (community) in Bengal and refugees from Hindu, Buddhist, Jain communities will get citizenship through CAA," Shah assured. "Mamata Didi is lying and spreading misinformation. No power in the world can stop the Centre from implementing CAA. This is the promise of Modi ji," Shah said, adding, "Mamata Didi says she will not allow CAA. How will she stop it? CAA is a central issue."



He added that Banerjee only cares about the infiltrators from Bangladesh as they are her vote bank. "Mamata Banerjee allows infiltrators to enter Bengal and gives them citizenship," the Union minister alleged. Speaking at a rally in West Bengal's Bongaon in support of Matua Mahasangh chief and junior minister Shantanu Thakur, Shah also claimed that PM Narendra Modi has al-

ready got the majority after the completion of voting in 380 seats in the first four phases. He added that people should give 30 plus seats to BJP oust Mamata Banerjee from power. "Will you help us cross 400 by giving 30 plus in Bengal," Shah asked the crowd while addressing them Bongaon and Uluberia. "Didi is lying that those who will apply in CAA will lose citizenship... If we win, Shantanu Thakur will go to every house and help you get citizenship. I have come to assure the people of the Matua community that no one will face any trouble," Shah said in Matua-dominated Bongaon. He urged the Matuas to upload their applications, adding, "If you are stuck, take help of Santanu Thakur."

Shah also slammed the Bengal CM for her claims on EVM manipulations. "When you became the CM, the same EVMs worked properly. When people are aware and want to throw you out, you are blaming the EVMs."

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

ICICI Bank Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand (Rs.)	Name of Branch
1.	Saroj Kumar Jha/ Savitri Devi- LBJAI00004786042/ LBJAI00004844878/ LBJAI00004785073	Unit No. F- 1, First Floor, Aastha Residency, Plot No. A- 68, Awadhpur A Block, Giridihpur, Jaipur, Rajasthan- 302021/ May 09, 2024	December 28, 2023 Rs. 20,68,803.00/-	Jaipur/ Muzaffarpur (Bihar)
2.	Ankit Singh/ Vishal Singh- TBJAI00006569762	Flat No.203 On 2nd Floor, Avana Patrakar Colony 11 A P, Khasra No.56, Ajmer Road, Village Narotampura, Tehsil Sanganeer, District Jaipur, Rajasthan- 302011 Flat No.204 On 2nd Floor, Avana Patrakar Colony 11 A P, Khasra No.56, Ajmer Road, Village Narotampura, Tehsil Sanganeer, District Jaipur, Rajasthan- 302011/ May 09, 2024	January 23, 2024 Rs. 46,20,556.00/-	Jaipur/ Ghaziabad/ Gautam-Budh Nagar (Uttar Pradesh)

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.
Date: May 15, 2024
Place: Jaipur
Authorized Officer
ICICI Bank Limited

'Big Whale Behind HD Revanna's Ordeal'

Our Political Bureau

Bengaluru: JDS state president HD Kumaraswamy on Tuesday blamed the handwork of a "big whale" for the ordeal of his brother and senior JDS MLA HD Revanna in the Hassan sex abuse case, in an obvious reference to arch rival Deputy CM DK Shivakumar. Shivakumar, however, denied the

charges and said he would reply to Kumaraswamy's comments on the floor of the assembly. "Let him catch the whale, thrash it, and swallow it. I am neither a producer nor the director," he told the media, denying any role in the distribution of pen drives containing explicit videos. Karnataka's special investigation team (SIT) is probing the alleged sexual abuse of women by Hassan NDA candi-

date Prajwal Revanna, who has been absconding since April 27. The SIT had arrested his MLA father for being part of a plot to abduct a victim of sexual abuse from her house. As HD Revanna stepped out of the central prison in Bengaluru after getting a bail from the court, Kumaraswamy said that his brother's arrest was part of a conspiracy to malign the family of former PM HD Deve Gowda. If the government had any courage

or conviction, then it must lead the SIT probe in the right direction. Instead, it was unnecessarily revolving around Revanna, Kumaraswamy added. He also sought to know why the SIT officials were not chasing the people who distributed pen drives containing explicit videos or Hassan MP Prajwal Revanna's car driver who first stole the videos and led to their widespread distribution.



50 YEARS OF TRUST

Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter / Year ended 31st March, 2024. (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1. Total income from operations	2,08,047	2,15,133	7,80,927	7,99,671
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13,935	21,529	44,499	45,925
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13,935	21,529	44,499	45,925
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,392	15,558	32,916	33,552
5. Total Comprehensive Income for the period	10,278	15,528	32,785	33,509
6. Equity Share Capital	5,424	5,381	5,424	5,381
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)			2,11,215	1,80,978
8. Earnings Per Share (of Rs.5/- each) in Rs.				
1. Basic:	9.61	14.52	30.51	31.39
2. Diluted:	9.55	14.30	30.25	30.83

NOTE:
1. The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and the Company's website www.surya.co.in.
2. The Key Standalone Financial Information is as under:

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1. Total income from operations	2,08,038	2,15,119	7,80,852	7,99,595
2. Profit before tax	13,931	21,523	44,460	45,893
3. Profit after tax	10,388	15,554	32,886	33,528

SURYA ROSHNI LIMITED
Regd. Office: Prakash Nagar, Sanikhol, Bahadurgarh, Haryana - 124507
Corp. Office: 2nd Floor, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008
CIN No. L21510HR1979PLC200763. Tel: +91-11-47158000
Website: www.surya.co.in, Email: investor@rosnhni.com

For Surya Roshni Limited
SD/ Vinay Surya
Managing Director
DIN: 00515803
New Delhi, May 14, 2024

Dynamic Cables Limited

A Govt. Recognized Two STAR Export House

Powering the Growth

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2024

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
	31-03-24 (Audited)	31-12-23 (Unaudited)	31-03-23 (Audited)	31-03-24 (Audited)	31-03-23 (Audited)
I Total Income from Operations	24,190.50	19,317.86	17,960.81	77,149.22	67,174.77
II Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,830.40	1,027.86	1,306.03	5,076.58	4,175.35
III Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,830.40	1,027.86	1,306.03	5,076.58	4,175.35
IV Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,377.41	752.36	998.30	3,777.14	3,101.35
V Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,373.94	754.59	992.40	3,765.98	3,091.04
VI Equity Share Capital	2,201.40	2,201.40	2,201.40	2,201.40	2,201.40
VII Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	19,193.78	15,541.61
VIII *Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
1. Basic: (in INR)*	6.26	3.42	4.53	17.16	14.09
2. Diluted: (in INR)	6.26	3.42	4.53	17.16	14.09

NOTES:
1. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the board of directors at their respective meeting held on 14th May, 2024
2. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
3. The above is an extract of the detailed format of financial result for the quarter and year ended 31.03.2024 filed with the stock exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The full format is available on the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and the company's website i.e. www.dynamiccables.co.in.

Place : Jaipur
Date : Date : 14th May 2024

For & on behalf of Board of Directors
Dynamic Cables Limited

Ashish Mangal
Managing Director
DIN 00432213

CIN: L31300RJ2007PLC024139
Regd. Office & Unit-1: F-260, Road No.13, VKI Area, Jaipur-302013 (INDIA)

PDS Limited

Global | Collaborative | Digital | Ethical

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024

(All amounts in ₹ lakhs, unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		
		31 March 2024 (Unaudited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Unaudited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
1	Revenue from operations	321,517.98	257,977.88	274,165.56	1,037,264.96	1,057,700.42
2	Other income	575.76	1,567.31	213.71	3,467.45	5,153.05
3	Total income	322,093.74	259,545.19	274,379.27	1,040,732.41	1,062,853.47
4	Total operating expense	315,579.09	255,933.72	265,899.83	1,018,110.65	1,027,210.04
5	Earnings before interest and tax	9,297.97	6,743.74	11,218.43	33,321.29	43,055.05
6	Net profit for the period/year (before tax and exceptional items)	6,514.65	3,611.47	8,479.44	22,621.76	35,643.43
7	Net profit for the period/year before tax (after exceptional items and share of profit/loss from associates and joint ventures)	6,973.52	3,611.07	8,590.37	23,239.57	35,675.36
8	Net profit for the period/year after tax (after exceptional items and share of profit/loss from associates and joint ventures)	6,538.71	2,549.82	7,661.03	20,268.08	32,676.84
9	Total comprehensive income for the period/year (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	11,135.28	2,068.72	8,698.76	27,348.21	35,383.86
10	Paid up equity share capital (face value of ₹2 each)	2634.73*	2,633.45*	2,615.91*	2634.73*	2,615.91*
11	Other Equity				114,015.03	102,751.92
12	Earnings/(loss) per share (in ₹) (face value of ₹ 2 each) - (not annualised)					
	Basic	3.48	1.11	4.33	10.98	20.30
	Diluted	3.41	1.09	4.26	10.77	19.93

Notes:
a) The Financial Results of the Company/Group for the quarter and year ended 31 March 2024, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14 May 2024 and have been audited by the Statutory Auditors.
b) The financial performance of the company on standalone basis for the quarter and year ended 31st March 2024 are (₹ in lakhs):

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31 March 2024 (Unaudited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Unaudited)	31 March 2024 (Audited)
Turnover	19,373.28	13,393.33	19,888.07	62,541.97
Profit before tax	3,951.15	3,135.19	4,190.07	8,185.13
Profit After tax	4,123.82	2,982.82	3,980.10	7,907.96
Total comprehensive income	4,110.46	2,982.82	3,957.57	7,894.60

c) The above is an extract of detailed format of financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015. The full format of the Audited financial results of the Group and the Company for the quarter and year ended 31 March 2024 are available on the Company's website (www.pdsld.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com)

For and on behalf of the Board of Directors
PDS Limited

Deepak Kumar Seth
Chairman
DIN: 00003021

Place: Mumbai
Date : 14 May 2024

CIN: L18101MH2011PLC388088
Registered Office: Unit No. 971, Solitaire Corporate Park, Andheri Ghatkopar Link Road, Andheri East, Mumbai-400093, Maharashtra, India | Tel: +91 22 41441100;
Email: investors@pdsld.com, Website : www.pdsld.com

